

पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व / निर्देशन पर जनपदीय पुलिस के समस्त कार्यालयों/थानों में जनसुनवाई का आयोजन कर जनसामान्य की समस्याओं को किया गया निस्तारित-

आज दिनांक 31.12.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की गई, इस दौरान पुलिस कार्यालय में आने वाले फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी कार्यालय/यातायात सुश्री हर्षिता गंगवार व क्षेत्राधिकारी सदर श्री रामप्रवेश राय मौजूद रहे।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस के सभी कार्यालयों/थानों में सम्बन्धित प्रभारी द्वारा प्रतिदिन की भांति जनसुनवाई का आयोजन किया गया, इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया व प्राप्त शिकायतों का शीघ्र/गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया।



यूपी-112 के 03 दिवसीय जागरुकता कार्यक्रम/स्टॉल का पुलिस अधीक्षक महोबा ने किया उद्घाटन- गांव हो या हाट, आपदा में यूपी-112 है हमेशा आपके साथ ।

सेल्फी प्वाइंट का दिखा क्रेज, लोगों ने खिंचवाये फोटो...।

नववर्ष आगमन के अवसर पर यूपी-112 पुलिस की ओर से दिनांक 30.12.2022 से 01.01.2023 तक 03 दिवसीय जागरुकता स्टॉल जो जनपद में आल्हा चौक व कीरत सागर तट में लगाये गये हैं, जिनका पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा दिनांक 30.12.2022 को फीता काटकर उद्घाटन किया गया तथा यूपी-112 द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न जनोपयोगी सेवाओं के बारे में महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों को जागरुक किया।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा लोगो को यूपी-112 से सम्बन्धित प्रचार सामग्री जैसे - एटीएम कवर, स्टिकर, बच्चों को लूडो आदि वितरित किये गये और बताया गया कि किसी भी परेशानी में, किसी बीमारी में, कहीं झगड़ा हो रहा हो, कहीं आप असुरक्षित महसूस कर रहे हों व अन्य किसी समस्या में आप 112 डायल कर यूपी पुलिस की आपातकाल सेवा का लाभ ले सकते हैं ।

गौरतलब है कि उक्त दोनो स्टॉलों के पास सेल्फी प्वाइंट भी बनाया गया है, इस दौरान महिलाओ, पुरुषों व बच्चों ने यहां न केवल यूपी112 के विषय में जानकारी हासिल की बल्कि सेल्फी भी ली, पुलिस अधीक्षक महोबा व क्षेत्राधिकारी नगर समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय लोगों के साथ यूपी 112 की खड़ी गाड़ी के मॉडल में फोटो भी खिंचवाये ।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय, प्रभारी निरीक्षक यूपी 112 महोबा श्री शशि कुमार पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली महोबा श्री बलराम सिंह, थानाध्यक्ष महिला थाना श्रीमती सुषमा चौधरी सहित सम्मानित पत्रकार बन्धु उपस्थित रहे।



नववर्ष के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, दिये गये सख्त निर्देश ।

नववर्ष की पूर्व संध्या पर जनपदीय पुलिस रहेगी मुस्तैद, जश्न के दौरान कानून-व्यवस्था पर रहेगी पुलिस की विशेष नजर ।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा समस्त जनपदवासियों को नववर्ष 2023 की अग्रिम बधाई दी गयी है तथा समस्त जनपदवासियों से आगामी आने वाले नववर्ष को सौहार्द पूर्वक/सुरक्षित ढंग से मनाए जाने की अपील की गयी है ।

आज दिनांक 31.12.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा जनपदीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण क्रमशः अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम, क्षेत्राधिकारी यातायात सुश्री हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय व भारी पुलिस बल के साथ नववर्ष 2023 की पूर्व संध्या के अवसर पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को सुगमता/शालीनता से मनाये जाने हेतु भीड़-भाड़ वाली जगहों में पैदल गस्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया ।

पुलिस अधीक्षक द्वारा यूपी-112 के जागरुकता स्टॉल का भ्रमण कर लोगों को 112 की विभिन्न जनोपयोगी सेवाओं के बारे में महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों को जागरुक किया गया ।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि नववर्ष के उल्लास में कहीं भी हुडदंग न होने पाये विशेषकर ऐसी जगह जहां भीड़ रहती हो जैसे प्रमुख चौराहों, घाटों, पिकनिक स्पॉट इत्यादि स्थानों पर जनपदीय पुलिस बल के जवानों को सादे वस्त्रों व वर्दी में तैनात किया जाये, साथ ही महिलाओं एवं बच्चियों के साथ कोई दुर्व्यहार न हो इसके लिये यह सुनिश्चित किया जाये कि जनपदीय एण्टीरोमियो टीमों व यूपी-112 की गाडियां लगातार भ्रमणशील रहे, यातायात पुलिस सहित जनपदीय पुलिस को निर्देशित किया गया है कि महत्वपूर्ण स्थानों पर ब्रेथ एनालाइजर लगाकर Drink & Drive की चेकिंग करायी जाये ।



पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले जनपदीय पुलिस के 01 निरीक्षक व 03 उपनिरीक्षक पुलिसकर्मियों को उपहार देकर दी गई भावुक विदाई ।

आज दिनांक 31.12.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, महोबा में विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद महोबा में नियुक्त 01 निरीक्षक व 03 उपनिरीक्षक पुलिस कर्मियों को उ0प्र0 पुलिस सेवा से अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने पर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा स्मृति चिन्ह/शॉल, उपहार व पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया एवं पुलिस सेवा में रहते हुये उनके द्वारा किये गये सराहनीय सेवाओं को याद करते हुये सभी के उज्ज्वल भविष्य व उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गयी ।

सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों का विवरण...

1. निरीक्षक श्री अनिरुद्ध सिंह
2. उ0नि0 श्री दयाशंकर पांडेय
3. उ0नि0 श्री रुद्रमणि मिश्र
4. उ0नि0 श्री रामलखन

उक्त विदाई समारोह के अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम, क्षेत्राधिकारी कार्यालय/यातायात सुश्री हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय, प्रतिसार निरीक्षक श्री सैन्यजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नियुक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण सहित सेवानिवृत्त हुये कर्मियों के पारिवारीजन भी मौजूद रहे ।

